



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 1981/कार्तिक 21, 1903

No. 507] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 1981/KARTIKA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1981

का० आ० 797 (अ) — केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान ही जाने पर कि बरेलू बिद्युत साधनों का विनिर्माण, सञ्चालन विक्रय और वितरण का विनियमन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बरेलू बिद्युत साधन (बनाएली नियंत्रण) आदेश, 1981 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. लागू होना —यह आदेश ऐसे साधनों की बात जो भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) अधिनियम, 1952 के अधीन जारी की गई बिद्युत्माय्य अनुज्ञप्ति के अधीन मा० सा० स० चिन्ह से चिह्नित है, बरेलू बिद्युत साधनों के विनिर्माताओं को लागू नहीं होगा ।

3. परिभाषाएं :— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रयोजित न हो —

- (क) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है;
- (ख) "समुचित प्राधिकारी" से उद्योग निदेशक, नागरिक पूर्ति निदेशक की प्राप्ति का कोई अधिकारी या इस आदेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया समस्त प्राप्ति का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ग) बरेलू बिद्युत साधनों के संबंध में "व्यवहारी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो, या वह फर्म या हिन्दू अधिभक्त कुटुम्ब जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, किसी ऐसे साधन का क्रय करने उसका विक्रय करने प्रदाय करने या वितरण करने का कारबार चाहे वह नकद या आस्थगित संवाय के लिए हो या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रनिफल के लिए हो, चलाता है;
- (घ) "बरेलू बिद्युत साधन" से अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट बिद्युत साधन अभिप्रेत है ;
- (ङ) बरेलू बिद्युत साधनों के संबंध में "विनिर्माता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो, या वह फर्म या हिन्दू अधिभक्त कुटुम्ब जो, ऐसे किसी साधन का उत्पादन करता है, बनाता है समंजन

करता है या विनिर्माण करता है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिण्डू अविध्वक्त कुटुम्ब भी है जो, यथा-स्थिति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिण्डू अविध्वक्त कुटुम्ब द्वारा ऐसे विद्युत साधनों का उत्पादन करने, बनाने, समंजन करने या निर्माण करने का दावा करता है;

(ब) "घनसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी घरेलू विद्युत साधन के संबंध में "विनिर्दिष्ट मानक" से उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत उक्त साधन के संबंध में समय समय पर भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रकाशित मानक भी हैं,

(ज) "राज्य सरकार" के अन्तर्गत सब राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है;

4. ऐसे घरेलू विद्युत साधनों के विनिर्माण विक्रय आदि का प्रतिषेध जो विनिर्दिष्ट मानक के नहीं हैं :—

(i) कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे घरेलू विद्युत साधन का विनिर्माण विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा। जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है।

(ii) विक्रय के लिए प्रस्तावित या अभिविशित या विक्रोत प्रत्येक घरेलू विद्युत साधन में, यथास्थिति, साधन पर और जहां ऐसा संभव नहीं है उसके पैकेज पर, विनिर्माता का नाम और पता, सहज दृश्य रूप में दिया होगा और जहां उपर्युक्त पद्धतियों में से कोई भी व्यवहार्य नहीं है वहां उसके साथ उक्त आदेश का प्रमाणपत्र या लेबल होगा और यह घोषणा भी होगी कि साधन विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप हैं :

परन्तु इस खंड की कोई भी बात ऐसे घरेलू विद्युत साधन को लागू नहीं होगी जो निर्यात के लिए आश्रयित है यदि वह ऐसे साधन के ऋण के लिए किसी फर्म की संविदा में विदेशी क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानक के अनुरूप है जब तक कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1964 के उपबंधों के जहां भी वे लागू हों, अनुरूप है।

5. विनिर्माताओं का प्रमाणीकरण :—(i) कोई भी स्वयं या उसकी ओर से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, यदि वह पहले से ही विनिर्माता है, किसी घरेलू विद्युत साधन का तब तक विनिर्माण नहीं करता रहेगा जब तक कि उसने तीन मास की अवधि के भीतर उक्त साधन के लिए उस राज्य के, जिसमें वह साधन का विनिर्माण करता है, समुचित प्राधिकारी से विनिर्माता का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया है।

(ii) कोई भी व्यक्ति, इसके पश्चात् स्वयं या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किसी घरेलू विद्युत साधन का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उक्त साधन के लिए उस राज्य के, जिसमें वह साधन का विनिर्माण करने का प्रस्ताव करता है, समुचित प्राधिकारी से विनिर्माता का प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त कर लिया है।

(iii) समुचित प्राधिकारी किसी भी समय, अच्छे और पर्याप्त कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाए, एक या अधिक साधनों के लिए विनिर्माता का प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत कर सकता है :

परन्तु ऐसा विनिर्माता जिसका प्रमाणपत्र इस प्रकार प्रतिसंहृत किया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध खण्ड 14 में विनिर्दिष्ट रीति में अपील कर सकता है। विनिर्माता, यथा स्थिति, विनिर्माता के प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण के पश्चात् या ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध की गई अपील के अस्वीकृत किए जाने के पश्चात् उस घरेलू विद्युत साधन का, जिसके लिए इस प्रकार प्रतिसंहृत विनिर्माता प्रमाणपत्र जारी किया गया था, विनिर्माण करना तुरन्त समाप्त कर देगा।

6. भण्डारण, विक्रय और वितरण का प्रतिषेध :— कोई भी व्यक्ति रबयं या उसकी ओर से कार्य करने हुए किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी घरेलू विद्युत साधन का विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्मित नहीं किया गया है जिसने खंड 5 के अधीन विनिर्माता का प्रमाणपत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत की गई तारीख के पश्चात् भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह अनुमति अभिप्राप्त कर ली है।

7. जानकारी आदि संग्रह की शक्ति :—समुचित प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के विचार से —

(क) किसी घरेलू विद्युत साधन के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डार करने विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जैसा वह किसी घरेलू विद्युत साधन के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डार करने, विक्रय या वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक समझे या जैसा वह इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे या किसी व्यक्ति से किसी घरेलू विद्युत साधन के नमूने या किसी घरेलू विद्युत साधन के संघटकों देने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी घरेलू विद्युत साधन के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डार करने, विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई या उसकी या उसके कर्म या नियंत्रण के अधीन की किन्हीं पुस्तकों या अन्य वस्तुओं या किसी घरेलू साधन या किसी घरेलू विद्युत साधन के संघटकों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा ;

(ग) खण्ड 12 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी से किसी परिसर में प्रवेश और तलाशी करवा सकेगा और किसी घरेलू विद्युत साधन का, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है या वह विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है, अभिग्रहण कर सकेगा ;

(घ) तलाशी और अभिग्रहण को संबंधित वण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक संभव हो इस खंड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

8. नमूनों का परीक्षण :— जहां समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि यह अभिविशित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है कि कोई घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्दिष्ट मानक का है या नहीं, वहां वह ऐसे विद्युत साधन के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डार करने विक्रय या वितरण लगे किसी व्यक्ति से, उस (साधन) के तीन नमूने ले सकेगा जिनमें से यथास्थिति, एक परीक्षण के लिए होगा एक मुहरबन्ध किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी के पास रखा जाएगा एक विनिर्माता या व्यवहारी के पास छोड़ दिया जायगा।

(ii) सभी तीनों नमूने ऐसे विद्युत साधन के विनिर्माण, विक्रय के लिए संजूर करने या वितरण में इस प्रकार लगे हुए व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मुहरबन्ध किए जाएंगे। इस प्रकार लिए गए नमूनों को बाबत ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रारूप में, जो समुचित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, एक रसीद दी जाएगी और समुचित प्राधिकारी उस व्यक्ति को, यदि नमूने विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप होंगे विद्युत साधन की कीमत का संवाय करेगा या अन्यथा नमूने समपूत कर लिए जाएंगे।

(iii) जहां समुचित प्राधिकारी उपनियम (i) के अधीन घरेलू विद्युत साधन का कोई नमूना लेता है वहां वह, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है या नहीं उसे परीक्षण के लिए, भारतीय मानक संस्था द्वारा अनुमोदित किसी प्रयोगशाला को तुरन्त परिचल करेगा। परीक्षण प्रभावों का संदाय, समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(IV) समुचित प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि साधित विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है या नहीं, यह अवधारित करेगा कि किसी विनिर्दिष्ट साधित को बाबत कौन से परीक्षण किए जाने चाहिए। प्रत्येक विनिर्माता के हर प्रकार के साधितों की बाबत इस प्रकार किए गए परीक्षणों और उनके परिणामों का समुचित प्राधिकारी द्वारा निरंतर अभिलेख रखा जाएगा।

परन्तु यदि विनिर्माता उस राज्य से जिसमें किसी व्यवहारी से नमूना लिया गया है, भिन्न राज्य का है तो नमूना लेने वाला समुचित प्राधिकारी विनिर्माता से सीधे पत्र-व्यवहार नहीं करेगा किंतु परीक्षण रिपोर्ट उस राज्य के, जिसमें विनिर्माता रजिस्ट्रीकृत है समुचित प्राधिकारी को ससूचित करेगा और पश्चात्पूर्ति प्राधिकारी, विनिर्माता को इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्देश देगा।

(V) उप-खंड (III) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला का भारमाधक प्राधिकारी, यह अवधारित करने के लिए कि नमूना विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है या नहीं, आवश्यक परीक्षण करेगा या कराएगा और परीक्षण की रिपोर्ट तीन प्रतियों में ऐसे प्ररूप में, जो समुचित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, परीक्षण के लिए नमूना भेजने वाले प्राधिकारी को भेजेगा।

(VI) यदि आवश्यक हो तो परीक्षण-प्रयोगशाला समुचित प्राधिकारी के पास उपलब्ध दूसरा नमूना मंगा सकेगा या विनिर्माता अथवा व्यवहारी अपने पास छोड़े गए नमूना पर परीक्षण के लिए कह सकेगा और परीक्षण, विनिर्माता या व्यवहारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और एक सप्रेक्षक की उपस्थिति में किया जा सकेगा।

9 ऐसे किसी घरेलू विद्युत साधित के व्ययन का प्रतिशेष करने की शक्ति जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है -- (I) जहां खंड 8 के उपखंड (5) के अधीन प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई घरेलू विद्युत साधित विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है और उसकी लुटि दूर की जा सकती है वहां ऐसे साधित के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडार करने, विक्रय या वितरण में लगे व्यक्ति को उस लुटि के दूर करने के लिए और जवतक समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न किया जाए ऐसे साधितों का व्ययन न करने का निर्देश दे सकेगा।

(II) जहां समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि साधित की लुटि दूर नहीं की जा सकती है वहां वह ऐसे साधित के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडार करने, विक्रय या वितरण में लगे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह साधित को बाजार से तुरत वापस ले ले।

10 विनिर्माताओं और व्यवहारियों को निर्देश जारी करने की शक्ति -- समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों को इस आदेश के उपबन्धों से सगत ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो इस आदेश के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

11 निर्देशों का अनुपालन -- किसी घरेलू विद्युत साधित के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडार करने, विक्रय या वितरण में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस आदेश के अधीन कोई निर्देश जारी किया जाता है, ऐसे निर्देश का पालन करेगा।

12 शक्ति का प्रत्यायोजन - समुचित प्राधिकारी, लिखित रूप में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के अधीन अपने निमित्त अपने सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा परन्तु कोई भी ऐसा अधिकारी जो राजपत्रित पत्र का नहीं है, खंड 7 के उपखंड (I) के पैरा (ग) के अधीन तलाशी और

अभिसंहन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

13. सूचना देने की बाध्यता -- कोई भी विनिर्माता या व्यवहारी, इस आदेश के उपबन्धों से बचने के आशय में, खंड 7 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई सूचना देने से इंकार नहीं करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए या ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में किसी बड़ी या दस्तावेज या किसी घरेलू विद्युत साधित को न दिखाएगा, न नष्ट करेगा, न विकृत करेगा और न विरूपित करेगा।

14 अपील -- (1) समुचित प्राधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई विनिर्माता या व्यवहारी, ऐसे विनिश्चय की ससूचना देने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, लिखित रूप में अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी कोई अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल करने से अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था।

(II) उपखंड (I) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

15. शास्ति -- कोई भी व्यक्ति, जो इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों का या विनिर्माता प्रमाणपत्र के किसी निबन्धन और शर्तों का उल्लंघन करेगा, या उनके अधीन किए गए किसी निदेश या अध्यादेश को पूरा करने में असफल रहेगा, तो वह दंडनीय होगा और वह संपत्ति, जिसको बाबत ऐसा उल्लंघन हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के अधीन समपहृत की जाने का दायी होगा।

16. निरसन -- घरेलू विद्युत साधित (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1976, सिवाय वहां तक के जहां तक कोई कार्रवाई पहले हो चुकी है, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

घरेलू विद्युत साधितों की अनुसूची

क्रम सं०	घरेलू विद्युत साधित	मानक
1	2	3
1	विद्युत निमज्जन जल तापक	भा०मा० 368-1977
2	सचयन किस्म के स्वचालित विद्युत जल तापक	भा०मा० 2082-1978
3	घरेलू और समरूप प्रयोजनों के लिए स्विच	भा०मा० 3854-1966
4	रबर के विद्युत रोधी केबिल (ताबे के चालक सहित)	भा०मा० 434(भाग-1) 1964
5	रबर के विद्युत रोधी केबिल (एलु-मिनियम के चालक सहित)	भा०मा० 434(भाग-2) 1964
6	पी वी सी विद्युत रोधी केबिल (1100 वोल्ट तक वोल्टता के लिए)	भा०मा० 694-1977
7	पालिथिलीन विद्युत रोधी और पी वी सी आच्छादित केबिल (1100 वोल्ट तक और 1100 वोल्ट सहित)	भा०मा० 1596-1977
8	विद्युत आइसन	भा०मा० 366-1976
9	विद्युत स्टोव	भा०मा० 2994-1965

1	2	3
10. विद्युत हाट प्लेट	भा०मा०	365-1965
11. घरेलू विद्युत खाद्य मिश्रक (द्रावक, समिश्रित और पेयणक)	भा०मा०	4250-1967
12. विद्युत टोस्टर	भा०मा०	1287-1977
13. विद्युत काफी साधित्र (अनियामक किस्म के)	भा०मा०	3514-1966
14. घरेलू और वैसे ही उपयोग के लिए विद्युत केतली और जग	भा०मा०	367-1977
15. विद्युत कपड़े धोने की घरेलू मशीमें (अस्थचालित)	भा०मा०	6390-1971
16. विद्युत रेडियेटर	भा०मा०	369-1965
17. विद्युत जल बायलर	भा०मा०	3412-1965
18. मुख्य तार चालित विद्युत केश-शुष्कक	भा०मा०	7154-1973
19. मुख्य तार-चालित विद्युत शेवर्स	भा० मा०	5159-1969
20. विद्युत रसोई बरतने के घरेलू बूल्हे	भा० मा०	5790-1970
21. भाप इस्त्री	भा०मा०	6290-1970
22. घरेलू उपयोग के लिए लचीले विद्युत तापन पैड	भा०मा०	5161-1960
23. सुबाह्य हाथ वाले मुख्य तार चालित विद्युत मैसिजर्स	भा०मा०	7137-1973
24. सुबाह्य धीमी गति वाली खाद्य पेयण मशीन	भा० मा०	7603-1975
25. साधित्र-अनुयोजक और प्रवेश द्वार साधित्र (अनुत्क्रमणीय तीन-पिन किस्म वाले)	भा०मा०	3010(भाग-2) 1965
26. साधित्र—अनुयोजक और प्रवेश द्वार साधित्र (अनुत्क्रमणीय तीन-पिन किस्म वाले) भाग-II	भा०मा०	3010(भाग-2) 1965
27. विद्युत जल तापकों के साथ उपयोग के लिए तापस्थायी	भा०मा०	3017-1965
28. कार्टिज तापन तत्व किस्म (अनततः स्थापित किस्म)	भा०मा०	3724-1966
29. तापन तत्वों के लिए प्रतिरोधी बायर, टेप और स्ट्रिप	भा०मा०	3725-1966
30. ठोस अतः स्थापित किस्म के विद्युत तापन तत्व	भा०मा०	4158-1967
31. खिज से भरे हुए आ-छादित तापन तत्व	भा०मा०	4159-1967
32. साधारण प्रयोजन के विद्युत मोबन के लिए तापस्थायी	भा०मा०	4165-1967
33. अघ्नक रोधी तापन तत्व	भा०मा०	6446-1972
34. घरेलू और समरूप प्रयोजनों के लिए 2-रेमियरस्विच	भा०मा०	4949-1963
35. विद्युत सुवाह्य लैम्प स्टैंड और ब्रेकेट	भा०मा०	3481-1966

1	2	3
36. तीन-पिन प्लग और साकेट-निर्गम (प्रथम पुनरीक्षण)	भा०मा०	1293-1967
37. प्रतिस्क्रमी-पदाथ के बने हुए तीन-पिन प्लग	भा०मा०	6538-1971
38. बायोनेट लैप होल्डर	भा०मा०	1258-1967
39. विद्युत तात्क्षणिक जलतापक	भा०मा०	8978-1973
40. एकल पत्त के बेकिंग मोबन	भा०मा०	8985-1978

[फाईल नं० एस० एम० आई० (I)-24 (62)/81]

आर० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th November, 1981

S.O. 797(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for regulating the manufacture, store, sale and distribute the household electrical appliances hereby makes the following order, namely :—

1. Short title, extent and commencement :—(1) this order may be called the Household Electrical Appliances (Quality Control) Order, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. Application :—It shall not apply to the manufacturers of household electrical appliances in respect of such appliances which are marked with ISI Mark under a valid licence issued under the ISI (Certification Marks) Act, 1952.

3. Definitions:—In this order, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

(b) "Appropriate Authority" means any officer of the rank of Director of Industries, Director of Civil Supplies or any officer of equivalent rank appointed by the State Government to implement the provisions of this order;

(c) "dealer" in relation to household electrical appliances means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which, carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing any such appliance, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(d) "household electrical appliances" means the electrical appliances specified in column (2) of the Schedule;

(e) "manufacturer" in relation to household electrical appliances means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which, produces, makes, assembles or manufactures any such appliances and includes a person who or a firm or Hindu undivided family which claims such appliances to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family, as the case may be;

(f) "Schedule" means the Schedule annexed to this order

(g) "specified standard" in relation to a household electrical appliance mentioned in column (2) of the Schedule means the standard as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule and includes the standard published by the Indian Standard Institution from time to time in relation to that appliance;

(h) "State Government" includes a Union Territory Administration.

4. Prohibition of manufacture, sale, etc. of household electrical appliances which are not of the specified standard—

(i) No person shall himself or by any person acting on his behalf manufacture, store for sale, shall or distribute any household electrical appliance which does not conform to the specified standard.

(ii) Every household electrical appliance offered or exposed for sale or sold shall bear conspicuously on the appliance and where it is not possible on the package as the case may be, the name and address of the manufacturer and where none of the above modes is practicable it shall be accompanied by a certificate or label to that effect and also a declaration that the appliance conforms to the specified standard.

Provided that nothing in this clause shall apply to any household electrical appliance which is intended for export if it conforms to any other standard specified by the foreign buyer in a firm contract for the purchase of such appliance so long as it is in conformity with the provisions of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 wherever applicable.

5. Certification of manufacturers—(i) No person shall himself or by any person acting on his behalf if he is already a manufacturer continue to manufacture any household electrical appliance unless he has obtained a Manufacturer's Certificate for the said appliance from the Appropriate Authority of the State in which he manufactures the appliance within a period of three months.

(ii) No person shall hereafter himself or by any person on his behalf manufacture any household electrical appliance unless he has obtained a Manufacturer's Certificate for the said appliance from the Appropriate Authority of the State in which he proposes to manufacture the appliance.

(iii) The Appropriate Authority may at any time revoke a Manufacturer's Certificate for any one or more of the appliances for good and sufficient reasons to be recorded in writing.

Provided that the manufacturer whose certificate has been so revoked may prefer an appeal against such revocation in the manner specified in clause 14. After the revocation of the Manufacturer's Certificate or as the case may be after rejection of the appeal against such revocation the manufacturer shall forthwith cease to manufacture the household electrical appliance for which the Manufacturer's Certificate so revoked had been issued.

6. Prohibition of storage sale and distribution:—No person shall himself or by any person acting on his behalf store for sale sell or distribute any household electrical appliance which has not been manufactured by a person who has obtained Manufacturer's Certificate under clause 5 or an Indian Standards Institution Certification Mark Licence after the date appointed in this behalf by the State Government.

7. Power to call for information etc:—The Appropriate Authority may with a view to securing compliance with this order—

(a) require any person engaged in the manufacture storage for sale, sale or distribution of any household electrical appliance to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture storage for sale, sale or distribution of any household electrical appliance for the implementation of this order or require any such person to furnish to it samples of any household electrical appliance or any component of any household electrical appliance;

b) inspect or cause to be inspected any books or other documents or any household electrical appliance or the components of any household electrical appliance kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture storage for sale, sale or distribution of any household electrical appliance;

(c) cause an officer authorised under clause 12 to enter and search any premises and seize any household electrical appliance in respect of which it has reason to believe that a contravention of this order has been committed or the said appliance is not of the specified standard;

(d) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall so far as may be apply to searches and seizure under this clause.

8. Testing of samples :—(i) Where the Appropriate Authority is of the opinion that it is necessary so to do for the purpose of ascertaining whether any household electrical appliance is of the specified standard it may take from any person engaged in the manufacture storage for sale, sale or distribution of any such electrical appliance three samples thereof—one to be tested, one to be sealed and kept with the Appropriate Authority and one to be left with the manufacturer or the dealer as the case may be.

(ii) All the three samples shall be sealed in the presence of the person so engaged in the manufacture, storage for the sale or distribution of such electrical appliance or his authorised representative. A receipt in such form as may be specified by Appropriate Authority shall be given to such person in respect of the samples so taken and the price of the electrical appliance shall be paid by the Appropriate Authority to such person if the samples conform to the specified standard otherwise the samples shall be forfeited.

(iii) Where the Appropriate Authority has taken any sample of household electrical appliance under sub-clause (i) it shall deliver the same forthwith for testing to any laboratory approved by the Indian Standards Institution to ascertain whether the sample is of the specified standard. The testing charges will be paid by the Appropriate Authority.

(iv) The Appropriate Authority may decide in each case what tests should be performed by a laboratory in respect of a particular appliance in order to ascertain whether the appliance conforms to the specified standard. A continuous record of the tests so performed and the results thereof in respect of each type of appliance of each manufacturer shall be maintained by the Appropriate Authority:

Provided that if the manufacturer belongs to a State different from the State in which a sample has been drawn from a dealer the Appropriate Authority drawing the sample will

not communicate directly with the manufacturer but till communicate the test report to the Appropriate Authority of the State wherein the manufacturer is registered and the latter Authority will give necessary directions to the manufacturer in accordance with the provisions of this Order.

(v) The officer in charge of the laboratory referred to in sub-clause (iii) shall carry out or cause to be carried out tests necessary to determine whether the sample conforms to the specified standard and give a report on the result of the tests in triplicate to the authority sending the sample for test in such form as may be specified by the Appropriate Authority.

(vi) If necessary the testing laboratory may call for the second sample available with the Appropriate Authority; or the manufacturer of the dealer may ask for a test on the sample left with him and the test may be carried out in the presence of the manufacturer or dealer or his authorised representative and an observer.

9. Power to prohibit disposal of any household electrical appliance not conforming to specified standard:—(i) where the Appropriate Authority is satisfied on the basis of a test report received under sub-clause (v) of clause 8 that any household electrical appliance is not of the specified standard and the defect can be removed he may direct the person engaged in the manufacture storage for sale sale or distribution of such appliance to remove the defect and not to dispose of such appliances until authorised by the Appropriate Authority to do so.

(ii) Where the Appropriate Authority is satisfied that the defect in the appliance cannot be removed, he may direct the person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of such appliance to withdraw forthwith the appliance from the market.

10. Power to issue direction to manufacturers and dealers—The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of this Order, as may be necessary in carrying out the purposes of this Order.

11. Compliance of directions—Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any household electrical appliance, to whom any direction is issued under this order shall comply with such direction.

12. Delegation of power—The Appropriate Authority may, by general or special order in writing, authorise any officer to exercise on its behalf all or any of its functions under this Order; Provided that no officer who is not of a Gazetted rank shall be authorised by the Appropriate Authority to exercise the powers of search and seizure under paragraph (c) of sub-clause (1) of clause 7.

13. Obligation to furnish information—No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 7 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any household electrical appliance kept by such person or in the possession or control of such person.

14. Appeal—(i) Any manufacturer or dealer aggrieved by any decision of the Appropriate Authority may appeal in writing to the Appellate Authority, as may be notified by the State Government concerned, within 30 days from the date of receipt by him of the copy of the Order communicating such decision:

Provided that the Appellate Authority may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid if it is satisfied that

the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(ii) On receipt of the appeal under sub-clause (i), the Appellate Authority may, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order as it may deem fit.

15. Penalty—Any person who contravenes any of the provisions of this Order or of the terms and conditions of the Manufacturer's Certificate, or fails to carry out any direction or requisition made thereunder shall be punishable and the property in respect of which the order has been contravened, shall be liable to forfeiture under section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

16. Repeal—The Household Electrical Appliances (Quality Control) Order, 1976 is hereby repealed, save in so far as any action already taken.

Schedule of Household Electrical Appliances

Sl. No.	Household Electrical Appliances	Standard
1	2	3
1.	Electric immersion water heaters	IS : 368—1977
2.	Storage type automatic electric water heaters.	IS : 2082—1978
3.	Switches for domestic and similar purposes.	IS : 3854—1966
4.	Rubber-insulated cables (with copper conductors)	IS : 434 (Part-I) 1964
5.	Rubber-insulated cables (with aluminium conductors)	IS : 434 (Part-II) 1964
6.	PVC insulated cables (for voltage up to 1100 V)	IS : 694—1977
7.	Polythylene insulated and PVC sheathed cables upto and including 1100 volts.	IS : 1956—1977
8.	Electric Irons	IS : 366—1976
9.	Electric Stoves	IS : 2994—1965
10.	Electric Hot Plates	IS : 365—1965
11.	Domestic Electric Food Mixers (Liquidizers, blenders & grinders)	IS : 250—1980
12.	Electric Toasters	IS : 1287—1965
13.	Electric Coffee Percolators (Non-regulator type)	IS : 3514—1966
14.	Electric Kettles and Jugs for household and similar use	IS : 367—1977
15.	Domestic electric clothes washing machine (non-automatic)	IS : 6390—1971
16.	Electric radiators	IS : 369—1965
17.	Electric Water Boilers	IS : 3412—1965
18.	Mains-operated electric hair dryers	IS : 7154—1973
19.	Mains-operated electric shavers	IS : 5159—1969
20.	Domestic electric cooking ovens	IS : 5790—1970
21.	Steam Irons	S : 6290—1971
22.	Flexible Electric Heating Pipes for domestic use.	IS : 5161—1969

1	2	3	1	2	3
23.	Portable, hand-held mains-operated electric massagers	IS : 7137-1973	32.	Thermostats for general purpose electric ovens	IS : 4165-1967
24.	Portable low speed food grinding machine	IS : 7603-1975	33.	Mica insulated heating elements	IS : 6445-1972
25.	Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance connectors	IS : 3010 (Part-I) 1965	34.	2 Amps. switches for domestic and similar purposes	IS : 4949-1968
26.	Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance inlets	IS : 3010 (Part-II) 1965	35.	Electric portable lamp stands and brackets	IS : 3481-1966
27.	Thermostats for use with Electric Water Heaters	IS : 3017-1965	36.	Three pin plugs and socket-outlets (First Revision)	IS : 1293-1967
28.	Cartridge type heating elements (non-embedded type)	IS : 3724-1966	37.	Three pin plugs made of resilient materials	IS : 6538-1971
29.	Resistance wires, tapes and strips for heating elements	IS : 3725-1966	38.	Bayonet lampholders	IS : 1258-1967
30.	Solid embedded type electric heating elements	IS : 4158-1967	39.	Electric instantaneous water heaters	IS : 8978-1978
31.	Mineral filled sheathed heating elements	IS : 4159-1976	40.	Single walled baking oven	IS : 8985-1978

[File No. SSI (I)—24 (62)/81]

R. SRINIVASAN, Jt. Secy.

